



SUMMATIVE ASSIGNMENT - II 2022-23

Grade – IV

Subject- HINDI

Syllabus –CH.8 to 14

(खंड क) अपठित गद्यांश

दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

(1)

पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकें रखने का स्थान । हर स्कूल और कालेज में पुस्तकालय होता है । पुस्तकालय में ना केवल किताबें होती हैं ,बल्कि अखबार ,पत्र -पत्रिकाएं ,चार्ट आदि भी होते हैं । हम लोग पुस्तकालय में बैठकर मन पसंद किताबें ,अखबार और पत्र -पत्रिकाएं पढ़ते हैं । हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है । उसमें हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें हैं । बीच में एक बड़ी मेज है । हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र -पत्रिकाएं पढ़ते हैं । बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमे चित्रवाली कहानी की किताबें पढ़ने में मजा आता है ।

प्रश्न 1 पुस्तकालय में क्या -क्या चीजें होती हैं ?

उत्तर पुस्तकालय में किताबें, अखबार और पत्र -पत्रिकाएं ,चार्ट आदि भी होते हैं ।

प्रश्न 2 बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं ?

उत्तर बच्चे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हैं ।

प्रश्न 3 हमारी पुस्तकालय की कक्षा कब होती है ?

उत्तर हमारी पुस्तकालय की कक्षा बुधवार को होती है ।

प्रश्न 4 बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है ?

उत्तर बच्चों को चित्र वाली पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है

प्रश्न 5 पुस्तकालय किसे कहते हैं ?

उत्तर हम जहां बैठकर मन पसंद किताबें ,अखबार और पत्र -पत्रिकाएं पढ़ते हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं ।

अपठित गद्यांश

(2)

एक गधा जंगल में घास चर रहा था । जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक माधव का घर था । वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता । जंगल की हरी -हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मजा आता था।उसे वहाँ कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ । मगर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में सर -सराहट सुनाई दी । उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए । झाड़ियों से निकल सामने एक बाघ आ खड़ा हुआ था । गधे ने सोचा कि आज तो मारे गए । मगर आदमियों की संगत में रहकर

वह भी बहुत चालक हो गया था ।

प्रश्न 1 गधा जंगल में क्या कर रहा था?

उत्तर गधा जंगल में घास चर रहा था ।

प्रश्न 2 जंगल के किनारे पर किसका घर था ?

उत्तर जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक माधव का घर था ।

प्रश्न 3 गधे को क्या खाकर मजा आता था ।

उत्तर जंगल की हरी -हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मजा आता था ।

प्रश्न 4 एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में क्या सुनाई दिया ?

उत्तर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में सर -सराहट सुनाई दी ।

प्रश्न 5 विलोम शब्द लिखिए -

उत्तर (1) दिन x रात

(2) सिर x पैर

अपठित पद्यांश

(1)

दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

उठो लाल अब आंखे खोलो ।

पानी लायी हूँ मुह धो लो

बीती रात कमल दल फूले

उनके ऊपर भौरें झूले

चिड़ियाँ चहक उठीं पेड़ों पर

बहने लगी हवा अति सुन्दर

प्रश्न 1 इस कविता में कौन किसको जगा रहा है ?

उत्तर इस कविता में माँ बेटे को जगा रही है ।

प्रश्न 2 बीती रात कौन से फूल ,खिल चुके हैं ?

उत्तर बीती रात कमल दल खिल चुके हैं।

प्रश्न 3 पेड़ों पर कौन चहक उठा है ?

उत्तर पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक उठी हैं ।

प्रश्न 4 माँ ने उठो लाल शब्द किसके लिए प्रयोग किया है ?

उत्तर माँ ने उठो लाल शब्द बेटे लिए प्रयोग किया है ?

प्रश्न 5 दो पर्यायवाची शब्द लिखो -

उत्तर रात - निशा ,रात्रि कमल -सरोज ,नीरज

(2)

पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ

सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ

पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार

नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार

प्रश्न 1 पर्वत शीश उठाकर क्या बनने के लिए कहता है ?

उत्तर पर्वत शीश उठाकर ऊंचा बनने के लिए कहता है।

प्रश्न 2 मन में गहराई लाने के लिए कौन कहता है ?

उत्तर मन में गहराई लाने के लिए सागर कहता है ।

प्रश्न 3 पृथ्वी मनुष्य से क्या ना छोड़ने के लिए कहती है ?

उत्तर पृथ्वी मनुष्य से धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है ।

प्रश्न 4 नभ क्या ढकने की बात करता है ?

उत्तर नभ सारे संसार को ढकने की बात करता है ।

प्रश्न 5 पर्वत एवं पृथ्वी के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए -

उत्तर पर्वत -गिरि ,भूधर पृथ्वी -भू ,धरा

(खंड ख) व्याकरण विभाग

निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए -

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. तुम कहाँ जा रहे हो । | प्रश्नवाचक वाक्य |
| 2. भारत एक महान देश है । | विधानवाचक वाक्य |
| 3. मैं कल स्कूल नहीं गया था । | निषेधवाचक वाक्य |
| 4. मैंने आज कहना नहीं खाया । | निषेधवाचक वाक्य |
| 5. रावण लंका का राजा था । | विधानवाचक वाक्य |

पर्यायवाची शब्द

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. गिरि | पहाड़ ,भूधर ,पर्वत |
| 2. अलंकार | आभूषण, जेवर ,गहना |
| 3. अग्नि | आग,ज्वाला ,अनल |
| 4. भाई | भाता ,भाई ,अनुज |
| 5 कपड़ा | वस्त्र ,वसन , चीर |

निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यप्रयोग करो

1 अंग -अंग ढीला होना - बहुत थक जाना

वाक्य प्रयोग - होली मे घर की सफाई करते -करते मेरा अंग -अंग ढीला हो गया ।

2 अंधे की लकड़ी -एक मात्र सहारा

वाक्य प्रयोग -प्रिशा अपने बूढ़े माँ - बाप की अंधे की लकड़ी है ।

3 अक्ल का दुश्मन -मूर्ख

वाक्य प्रयोग- मिहिका ने सरकारी नौकरी छोड़ दी ऐसा लगता है कि वह अक्ल का दुश्मन है ।

4 आँखे खुलना -होश आना

वाक्य प्रयोग - नविका अभी से परीक्षा की तैयारी में जुट गई चलो अच्छा हुआ समय रहते उसकी आँखे खुल गई ।

5 आँखों का तारा -बहुत प्यारा

वाक्य प्रयोग – सुयश अपनी दादी की आँखों का तारा है ।

निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो -

1. नाटक का पर्दा गिरना -पटाक्षेप
2. जो सपना दिन में देखा जाए - दिवास्वप्न
3. रात का भोजन -रात्रिभोज
4. जो उत्तर ना दे सके -निरुत्तर
5. जिसने मृत्यु को जीत लिया हो -मृत्युंजय

उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए

1. तुम कहाँ जा रहे हो ?
2. ओह! आज कितनी गर्मी है ।
3. मेरा नाम गौरव है ।
4. मैंने आज आम ,संतरे खाए ।
5. दिन- रात परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है ।

(खंड ग) साहित्य विभाग

वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

प्रश्न1 धनी ने बिन्नी को किससे बांधा ?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (क) नींबू के पेड़ से | (ख) आम के पेड़ से |
| (ग) झाड़ी से | (घ) रस्सी से |

प्रश्न2 हुदहुद की गर्दन का अगला हिस्सा किस रंग का होता है?

- | | |
|-----------|------------|
| (क) भूरा | (ख) बादामी |
| (ग) सफेद | (घ) काला |

प्रश्न3 अचार की बोतल कहाँ रखी हुई थी ?

- | | |
|-----------------|----------------|
| (क) मेज पर | (ख) अलमारी में |
| (ग) रसोई घर में | (घ) स्टूल पर |

प्रश्न4 सागर के किनारे कौन बैठा था ?

- | | |
|--------------|----------------------|
| (क) नाव वाला | (ख) मछली पकड़ने वाला |
| (ग) मजदूर | (घ) गोताखोर |

प्रश्न5 निम्न में से हुदहुद की विशेषता कौन सी थी ?

- | | |
|-------------|-----------|
| (क) चतुर | (ख) मूर्ख |
| (ग) समझदार | (घ) सीधा |

प्रश्न6 मंडी में क्या फैला हुआ था ?

(क) कोलाहल

(ख) नारियल

(ग) रुमाल

(घ) छड़ी

प्रश्न 2 सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए -

प्रश्न 1 हुदहुदओं ने बादशाह की सहायता करने से मना कर दिया ।

(गलत)

प्रश्न2 अमित को सब छोटू -छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे।

(सही)

प्रश्न3 भारतीयों को नामक बनाने की मनाही थी ।

(सही)

प्रश्न4 बच्चा खेलता हुआ माँ के पास आता है ।

(गलत)

निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर दीजिए -

प्रश्न1 नारियल खरीदने भीखू भाई कहाँ गए ?

उत्तर नारियल खरीदने भीखू भाई बाजार गए ।

प्रश्न2 सुलेमान ने किस-किस से मदद मांगी ?

उत्तर सुलेमान ने गिद्धों और हुदहुदों से मदद मांगी ।

प्रश्न3 दुकान में घुसने के लिए सुनीता को कहाँ चढ़ना था ?

उत्तर दुकान में घुसने के लिए सुनीता को सीढ़ियाँ चढ़ना था ।

प्रश्न4 एकदिन फिक्र में कौन पड़ गया ?

उत्तर एकदिन फिक्र में पढक्कू पड़ गए ।

प्रश्न5 बिन्नी कौन थी ?

उत्तर बिन्नी एक बकरी थी ।

प्रश्न6 “ कौन ” कविता के कवि कौन हैं ?

उत्तर “ कौन ” कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं ।

निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए -

प्रश्न1 बैल की गर्दन में घंटी बांधने का क्या कारण था ?

उत्तर बैल की गर्दन में घंटी बांधने का कारण था मालिक को उसके साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी ।

प्रश्न2 हुदहुद की चोंच कैसी दिखाई देती है ?

उत्तर हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी के समान होती है ।

प्रश्न3 नीना टिंकू और चुन्नू से क्या काम करवाना चाहती है ?

उत्तर नीना टिंकू और चुन्नू से दाल बनवाना चाहती है ।

प्रश्न4 भीखू भाई की सहायता करने के लिए कौन-कौन आया ?

उत्तर भीखू भाई की सहायता करने के लिए ऊँट वाला और घुड़सवार आया ।

प्रश्न5 धनी ने बापू जी से मिलने का निश्चय क्यों किया ?

उत्तर धनी ने बापू जी से मिलने का निश्चय किया क्योंकि वह बापू जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहता था ।

प्रश्न6 रास्ते में मिली फरीदा ने सुनीता से क्या प्रश्न पूछा ?

उत्तर रास्ते में मिली फरीदा ने सुनीता से प्रश्न पूछा की यह तुम्हारे पास अजीब चीज क्या है ।

निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ उत्तर दीजिए -

प्रश्न1 हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे |क्यों ?

उत्तर हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे ।

प्रश्न2 मालिक कैसे जान लेता है कि बैल घूम रहा है कि नहीं ?

उत्तर बैल का गर्दन पर बंधी घंटी बजती है,जब बैल चलता है इसी कारण से बैल के गर्दन पर घंटी बांधी जाती है और मालिक को पता चल जाता है ।

प्रश्न3 बिल्ली क्या करती है और वह क्या -क्या खा जाती है ?

उत्तर जब सारे बच्चे खर्राटे मारकर सो जाते हैं तब बिल्ली आ जाती है और वह माखन रोटी चावल दाल सब कुछ चट कर जाती है ।

प्रश्न4 फरीदा की माँ ने फरीदा को दूर क्यों हटा दिया ?

उत्तर फरीदा की माँ ने फरीदा को दूर हटा दिया क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर बाजार गई थी ।

(खंड घ) लेखन विभाग


अनुच्छेद लेखन -क्रिसमस

- 1 क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है ।
- 2 यह त्यौहार ईसामसीह के जन्मदिन मनाया जाता है ।
- 3 प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को यह त्यौहार मनाया जाता है ।
- 4 इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर गिरिजाघर में जाते हैं ।
- 5 सभी लोग गिरिजाघर में एक साथ प्रार्थना करते हैं ।
- 6 प्रार्थना के बाद सभी लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं ।
- 7 विशेष रूप से क्रिसमस पर केक ही मुख्य पकवान होता है ।
- 8 यह त्यौहार आपस में खुशियां बांटने और स्नेहभाव रखने का संदेश देता है ।

चित्रलेखन

- 1 यह दृश्य प्रातः काल सूर्योदय का है ।
- 2 आसमान का रंग सूर्य की लालिमा लिए हुए एक अनूठी छटा बिखेर रहा है ।
- 3 कुछ पक्षी उड़ रहे हैं ,कुछ उड़ने की तैयारी में हैं ।
- 4 इस चित्र में दो घर दिखाई दे रहे हैं ,जिनके बाहर सुंदर फूलों के पौधे हैं ।
- 5 सामने एक कुआं है उसके पास एक बड़ा वृक्ष है ।
- 6 दो स्त्रियाँ सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी लेने जा रही हैं ।
- 7 चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहा है ।
- 8 पूरा दृश्य मनमोहक छटा बिखेर रहा है ।
- 9 प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना जाता है ।

10 इस समय भ्रमण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है ।



पत्र लेखन -औपचारिक पत्र

विषयांग -बड़ी बहन के विवाह हेतु एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए ।

सेवा में ,

प्रधानाचार्य

पुना इंटरनेशनल स्कूल

गांधीनगर ।

दिनांक : 12 दिसंबर 2022

विषय : अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र

श्री मान ,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में चौथी कक्षा का छात्र हूँ महोदय अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होने जा रहा है । अतः मुझे एक सप्ताह का अवकाश चाहिए ।

महोदय आशा है कि आप मुझे दिनांक 10 दिसंबर 2022 से 27

दिसंबर 2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

सोहन कुमार